CHUNILAL GANDHI VIDYABHAVAN
SURAT.

Manuscripts Library
S.D.P.B.
Coll. No. 348

Title Pançāyudha

CHUNILAL GANDHI VIDYABHAVAN, SURAT

Shastri Dinmanishankar Pustak-Bhandara

No. : 343. Subject : Stotra.

Title : ~~Pançayudha~~ Pançāyudha

Author : — Scribe : —

Date of the work : — Date of the Ms. : —

Place of the work : — Place of the Ms. : —

Size : 8.8" by 4.6" Extent : 4 foll.

Language : Sanskrit. Script : Devanāgari

Remarks : —

श्रीमतेरामानुजायनमः स्फुरतसहस्रारशिखातितीव्रंसुदर्शनभास्क
रकोटितुल्यं। सुरद्विषांप्राणविनाशविष्णोश्चक्रंसदाहंसरषंप्रपद्ये १
विष्णोर्मुखस्थानिलपूरितस्यपस्यध्वनिर्दानवदर्पहंता तंपांचजन्यं
शशिकोटिशुभ्रंसंखंसदाहंसरषंप्रपद्ये २ हिरण्मयंमेरुसम
नसारंकौमोदकींदैत्यकुलैकहंत्रीं वैकुंठवामाग्रकराभिमृष्टां।
गदांसदाहंसरषंप्रपद्ये ३ रक्षोसुराणांकठिनोग्रकंठछेदक्षर
क्षोणितदिग्धारंतं नंदकंनामहरेप्रदिप्तंखड्गंसदाहंसरषंप्र

पद्ये ॥ ४ ॥ यज्ज्यानिनादश्रवणात्सुराणां चेतांसि निर्मुक्तभयानि सद्यः ॥ भवंति दैत्याराति नाशाकं षैशाङ्कुसदा हं शरणं प्रपद्ये ॥ ५ ॥ इमं हरेः पंचमहायुधानां स्तवं पठेद्यो नुदिनं प्रभाते ॥ समस्तदुःखानि भयानि सद्य घनश्यंति पापानि सुखानि संति वनेऽरण्ये शत्रुजलाग्नि मध्ये परराज्ञपापेषु महाभयेषु ॥ इदं पठेत्स्तोत्रमनाकुलात्मा सुखी भवेत्तैः कृतसर्वरक्षः ॥ ६ ॥ इति श्रीपंचायुधस्तं संपूर्णं शुभमस्तु ॥ राम राम राम राम ॥

२९ वत्र १८८९ ना वर्ष वैशाख व १ नु दीवसे रनुक रावुतेना

८० कुवारना २११
२४ कडीयाना ५७
१०१ रामजीना ३
३३ बेनदारना १३६
१० बेरीनारोग ८१
१०५ छोगीडी ५७
चुनोमल १५
१०१ जोडुमल ३
१३१ वाशरना कडी
१२५ शेरजली वीश
५७ जाकडीआया ८
२७ कराइनोजोज
३१ बाथोरजवा
३१ का करी नीगा
१२ हट हजार ४